

विद्या- भवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय

नीतू कुमारी, वर्ग- तृतीय, विषय -हिंदी,

दिनांक -31-05-2021 एन.सी.ई.आर.टी पर आधारित

पाठ -4 शहीद भगत सिंह

सुप्रभात बच्चों,

आज की कक्षा में प्रश्न उत्तर हल करके दिया जा रहा है जो इस प्रकार है-

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर—(लघु उत्तरीय प्रश्न)

1.(क) भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई?

उत्तर -भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई।

(ख) भगत सिंह के किन्हीं दो क्रांतिकारियों साथियों का नाम बताइए?

उत्तर—सुखदेव व यशपाल

2. निम्न प्रश्नों के उत्तर-(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

(क) भगत सिंह का जन्म कहां और कब हुआ था? उनके माता पिता कौन थे?

उत्तर---भगत सिंह का जन्म लायलपुर में 27 दिसंबर, 1960 को हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था।

(ख) भगत सिंह के जन्म के समय देश में कैसा वातावरण था?

उत्तर--भगत सिंह के जन्म के समय अंग्रेजों का शासन था पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था।

(ग) साइमन कमीशन का बहिष्कार भगत सिंह ने किस प्रकार किया?

उत्तर-- लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उनके संगठन ने 'साइमन वापस जाओ' और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर साइमन कमीशन का विरोध किया।

(घ) भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा क्यों दी गई?

उत्तर_लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाने के बाद आक्रोश में भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सांडर्स की हत्या कर दी इस कार्य के कारण भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दे दी गई।

(ड) 'शहीद दिवस' कब और क्यों मनाया जाता है?

उत्तर--शहीद दिवस 23 मार्च, 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी की सजा दी गई।

तीनों ने देश के खातिर हंसते- हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया तब से यह दिन 'शहीद दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

गृहकार्य:-

दिए गए प्रश्न उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें तथा याद करें।